

ICRA Limited

October 29, 2019

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai 400 001, India

Scrip Code: 532835

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Plot no. C/1, G Block

Bandra-Kurla Complex

Bandra (East)

Mumbai - 400 051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.:- Advertisement copies

Please find enclosed copies of the extracts of unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of ICRA Limited ("the Company") for the second quarter and half year ended September 30, 2019 published in the following newspapers on October 26, 2019, pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

- 1. Financial Express
- 2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

RATING

Rlys to convert 200 saloons into 10 tourist trains to be run by IRCTC

Wealth sets you free

Reliance Nippon Life Asset Management Limited

(CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: Reliance Centre, 7th Floor, South Wing, Off Western Express Highway, Santacruz (East),

Mumbai - 400 055. • Tel No. +91 022 4303 1000 • Fax No. +91 022 4303 7662 • www.nipponindiamf.com

NOTICE NO. 89

Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund ("NIMF") has approved declaration of dividend

on the face value of Rs. 10/- per unit in the undernoted scheme of NIMF, with October 31, 2019 as the record date:

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Scheme will fall to the extent of

payout, and statutory levy, if any. * The dividend payout will be to the extent of above mentioned

dividend per unit or the difference of NAV from the last Specified Transaction Date (Ex. NAV) to the Record

Date mentioned above, whichever is higher. However the payout will be subject to the available distributable

The specified Transaction period for Nippon India Interval Fund V – Series 1 is 30th & 31st October, 2019 (both

business days). The following shall be applicable for application received during the specified transaction period.

In respect of valid applications for subscriptions received up to 3.00 p.m. on the aforesaid Record Date along

with a local cheque or a demand draft payable at par at the place where the application is received, the Ex-

Dividend NAV of the day on which application is received shall be applicable. The investors will not be eligible

In respect of valid applications received after 3.00 p.m. on the second day of the Specified Transaction Period

the closing NAV of the next working day shall be applicable, provided such a day is/ has been declared as a

In respect of purchase of units in Income/Debt Oriented scheme with amount equal to or more than Rs 2 lakhs,

the applicable NAV shall be subject to the provisions of SEBI Circular Cir/IMD/DF/19/2010 dated November

26, 2010 and CIR/IMD/DF/21/2012 dated September 13, 2012 on uniform cut-off timings for applicability of

NAV. With regard to unit holders who have opted for Dividend Reinvestment facility, the dividend due will be

reinvested by allotting Units for the Income distribution/ Dividend amount at the prevailing Ex-Dividend NAV

In respect of valid applications received up to 3.00 p.m. by the Mutual Fund, on the aforesaid Record Date the Ex-Dividend NAV of the date of receipt of application shall be applicable and the investors will be eligible for

For units in demat form: Dividend will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear

in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under dividend plan/option of the

All unit holders under the dividend plan/option of the above mentioned scheme, whose names appear on the

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the dividend.

Specified Transaction day for the fund. Otherwise, the application will be liable for rejection.

RAILWAYS HAS DECIDED to convert 200 saloons into 10 luxury tourist trains to be run by the IRCTC in a bid to regulate the use of the colonial erastyle carriages and generate additional revenue for the

Dividend Plan

national transporter, sources said on Friday. Conceived initially as

inspection cars to be exclusively used by railway officials to visit far flung areas, these saloons comprise of two bed-

Nippon india Mutual Fund

DIVIDEND DECLARATION

Name of the Scheme(s)

Nippon India Interval Fund V - Series 1 - Dividend Plan

Nippon India Interval Fund V - Series 1 - Direct Plan

For Subscriptions including Switch-ins under Dividend Option

For Redemptions including Switch-out under Dividend Option

the dividend declared on the aforesaid Record Date.

for dividend declared, if any, on the aforesaid Record Date.

*As reduced by the amount of applicable statutory levy.

surplus in the Scheme as on the Record date.

rooms, a lounge, a pantry, a toilet and a kitchen which are built to facilitate stay for up to five days.

"While a designated number of saloons will be kept for use of railway officials for

Dividend

(₹ per unit)*

0.0001

inspection, 200 of them will be turned over to IRCTC and will be operated as tourist trains. Upon conversion, around ten such trains can be put into service for public use," the source

Record Date

October 31, 2019

NAV as on October

24, 2019 (₹ per unit)

10.8440

10.8654

MUTUAL



Regd Office: 115-116, G.V.M.M. Estate, Odhav Road, Odhav. AHMEDABAD - 382 415. Website: www.welcaststeels.com E-mail: info@welcaststeels.com Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 11th November 2019 at Bangalore to, inter alia, consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended 30th September 2019. This intimation is also available at the website

of the Company www.welcaststeels.com and also on the websites of Stock Exchange www.bseindia.com

Place: Ahmedabad S. N. Jetheliya Date: 25.10.2019 Company Secretary

SWADESHI INDUSTRIES AND LEASING LIMITED

REGD OFF: MUNISUVRAT COMPLEX, PHASE III, BUILDING. A 1 1ST FLOOR, NEAR ANJUR PHATA BHIWANDI THANE- 421302 Email: Compliance@swadeshiglobal.com

Website: www.swadeshiglobal.com. NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Company will be held on Tuesday 12th November, 2019, inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results for Second quarter ended 30th September 2019. Further Pursuant as per the "Code of Conduct" formed under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; the trading window will be closed from Tuesday 1st October 2019 till forty eight hours after the date of declaration of results for Directors, KMP Officers and Designated Employees, and their

This information is also available on Company's website at www.swadeshiglobal.com and also on Stock Exchanges Website at www.bseindia.com

> AND LEASING LIMITED Gaurav Jain Managing Director DIN - 06794973

For **SWADESHI INDUSTRIES**

Date: 24.10.2019 Place: Mumbai

immediate relatives.



Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Telephone No.:+91-11-23357940-45; Website: www.icra.in; Email ID; investors@icraindia.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2019

Sr. No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2019 (Unaudited)	Six months ended September 30, 2019 (Unaudited)	Quarter ended September 30, 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	5,094.14	10,231.87	5,647.90
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,824.97	4,160.86	3,669.35
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,824.97	4,160.86	3,669.35
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,307.68	2,798.78	2,836.29
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,295.55	2,776.36	2,842.92
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Earnings per share (of ₹ 10/- each) Basic: Diluted:	13.60 13.60	29.10 29.10	28.76 28.74

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2019

Sr. No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2019 (Unaudited)	Six months ended September 30, 2019 (Unaudited)	Quarter ended September 30 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	7,763.10	15,466.73	8,106.71
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,721.44	5,866.42	3,769.19
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,721.44	5,866.42	3,769.19
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,931.96	3,985.64	2,683.49
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,917.43	3,959.91	2,690.24
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Earnings per share (of ₹ 10/- each) - Basic: Diluted:	19.85 19.85	40.95 40.95	27.17 27.15

The Company is in the process of addressing certain ongoing matters. Firstly, the Company is undergoing an adjudication proceeding ("Adjudication Proceeding") with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in relation to the credit ratings assigned to one of the Company's customers and the customer's subsidiaries. The Company is also cooperating with government agencies and responding to their queries in relation to this matter. Secondly, the Board of Directors of the Company has appointed external experts to examine and report on anonymous representations against certain of its existing/former officials, which were forwarded to the Company by SEBI ("Representations"). There have been certain allegations during the course of the internal examination of the Representations, which may be retaliatory in nature, for which the Board has appointed an external expert to examine. Thirdly, the Company has received a letter from SEBI seeking comments on observa by the IL&FS group. The Company has submitted its responses to SEBI on such observations. While the Company has made a provision for penalty on a prudent basis with regards to the Adjudication Proceeding, the Adjudication Proceeding as well as the examinations and other matters noted above remain ongoing and the results of which are not yet available or known. As on date, the Company is unable to estimate the impact, if any, that may result from a potential unfavorable conclusion of these matters or any related inquiry.

The above is an extract of the detailed format of Quarter and Six months ended September 30, 2019 of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Six months ended September 30, 2019 and a qualified report (in respect of matter described in Note-1 above) has been issued. The full format of the Quarter and Six months ended September 30, 2019 of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites of National Stock Exchange and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investors section on the Company's website www.icra.in.

Arun Duggal

Chairman (DIN: 00024262)

L&T Mutual Fund

Date: October 25, 2019

Place: Mumbai

6th Floor, Brindavan, Plot No. 177 C. S. T. Road, Kalina Santacruz (East), Mumbai 400 098

call 1800 2000 400 email investor.line@Intmf.co.in www.ltfs.com

Place: Gurugram

Date: October 24, 2019



Notice-Cum-Addendum (No. 24 of F.Y. 2019 - 2020)

Notice is hereby given that in accordance with the provisions of Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, the unaudited financial results ("Unaudited Results") of the Schemes of L&T Mutual Fund ("the Fund") for the half year ended September 30, 2019 have been hosted on the website of the Fund viz. www.ltfs.com ("Website").

Investors/Unit holders are requested to take note of the aforesaid and the Unaudited Results may be viewed on/downloaded from the Website.

For L&T Investment Management Limited

(Investment Manager to L&T Mutual Fund)

Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Triveni Turbine Limited Corporate Indentity Number: L29110UP1995PLC041834

per Unit on the record date.

Scheme as on record date.

Mumbai

October 25, 2019

Regd. office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extn., Noida, Uttar Pradesh - 201 305 Corporate office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector – 16A, Noida, Uttar Pradesh - 201301 E-mail:shares.ttl@trivenigroup.com, Website: www.triveniturbines.com,

Phone: 91 120 4308000 / Fax: 91 120 4311010-11

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 6th November, 2019 to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 2nd quarter / half year ended 30th September, 2019.

In terms of the Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading in Securities of the Company, the Trading Window for dealing in equity shares of the Company is closed from 1st October, 2019 till 8th November, 2019 (both days inclusive)

The intimation of the Board meeting is also available on the Company's web site www.triveniturbines.com and also on the website of BSE Ltd (www.bseindia.com) and The National Stock Exchange of India Ltd (www.nseindia.com)

> For Triveni Turbine Ltd. **Raiiv Sawhnev**

Company Secretary Place: Noida (U.P.) Date: October 25th, 2019

BAJAJ FINANCE LIMITED

ANNOUNCEMENT OF RESULT OF POSTAL BALLOT

The Members, **Bajaj Finance Limited**

This is to announce that pursuant to Section 110 of the Companies Act. 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company has completed the procedure for postal ballot in respect of the notice dated 17 September 2019. According to the report submitted by Shri Shyamprasad D. Limaye, Practising Company Secretary, Scrutiniser appointed for conducting the postal ballot process, requisite majority of votes have been received assenting to the resolution contained in the aforesaid notice.

I, therefore, declare that the special resolution relating to issue of securities to Qualified Institutional Buyers for an amount not exceeding ₹ 8,500 crore, as contained in the aforesaid notice, has been passed by the members, with the requisite majority.

For **Bajaj Finance Limited**

Place: Pune Date: 24 October 2019 Rahul Bajaj Chairman

CIN: L65910MH1987PLC042961 **Read. office:** Akurdi, Pune - 411 035 | **Tel:** 020 30186403 Fax: 020 30186364 | Email ID: investor.service@bajajfinserv.in **Website:** www.bajajfinserv.in/corporate-bajaj-finance

KIRLOSKAR INDUSTRIES LIMITED

A Kirloskar Group Company CIN No.: L70100PN1978PLC088972 Regd. Office: Office No. 801, 8th Floor, Cello Platina, Fergusson College Road, Shivajinagar, Pune 411 005 (India)

Authorised Signatory

For RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED

(Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)



Enriching Lives

EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2019

		STANDALONE			CONSOLIDATED		
Sr.	Particulars	Quarter Ended	Six Month Ended	Year Ended	Quarter Ended	Six Month Ended	Year Ended
No	Tarticular 3	30/09/2019	30/09/2019	31/03/2019	30/09/2019	30/09/2019	31/03/2019
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	2,801	2,998	4,603	48,550	96,956	219,026
2	Net Profit (+)/ Loss (-) for the period (Before tax, Exceptional and/ or extraordinary items)	3,213	3,640	5,680	4,931	7,987	18,763
3	Net Profit (+)/ Loss (-) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,213	3,640	5,680	4,931	7,987	18,763
4	Net Profit(+)/ Loss(-) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,988	3,275	4,951	3,598	5,724	13,174
5	Total Other Comprehensive Income	(12,581)	(8,521)	(49,289)	(12,641)	(8,622)	(49,261)
6	Total Comprehensive Income [Comprising Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) for the period]	(9,593)	(5,246)	(44,338)	(9,043)	(2,898)	(36,087)
7	Paid-up Equity Share Capital	971	971	971	971	971	971
8	Earnings per share (for continuing and discontinuing operations) (of Rs 10/- each) (not annualised):	9-000,000	-1314-1419 2011-04-10-05	10000000 25/0-00000	II KONDA	2576/45 2700 prilities	
	Basic	30.78	33.73	50.99	30.45	43.13	86.61
	Diluted	30.78	33.73	50.91	30.45	43.10	86.33

Notes:

Place : Pune

Date: 25 October 2019

- 1 The above results are reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 25 October 2019 and a Limited Review of the same has been carried out by the Statutory Auditors of the Company.
- 2 The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results are available on the Company's and Stock Exchange websites. (www.kil.net.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com).

For KIRLOSKAR INDUSTRIES LIMITED

Sd/-Mahesh Chhabria Managing Director DIN 00166049

"Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Limited and Kirloskar Industries Limited is the Permitted User"

New Delhi

Tel: +91 20 2970 4374
 Fax: +91 20 2970 4374

Email: investorrelations@kirloskar.com
 Website: www.kil.net.in





स्थान : नौयडा (उ० प्र०)

तिथि : अक्टूबर 25, 2019

डायरी संख्या 529

1993 के अधीन उपस्थित होने की सूचना

09.2019 को सचीबद्ध किया गया था।

LEAD FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. Office: 101, Sita Ram Mansion,

718/21, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

CIN L74140DL1993PLC053485

Notice of Board Meeting

Pursuant to clause 29 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 and SEBI Circular No.CIR/

CFD/FAC/62/2016 dated 05th July, 2016, Notice

s hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on

Saturday, the 30th day of November, 2019 at

2.00 P.M. at the Regd. Office of the company,

inter alia, to consider and take on record the

unaudited financial results of the company with

Ind-AS Compliance for the Quarter and half year

For LEAD FINANCIAL SERVICES LIMITED

प्रपत्र सं. आइएनसी-26 [कंपूनी (निगमन्) नियम, 2014 के

नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्योलय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (झ)छ के खंड (क)छ के मामले में

ऐएमएस गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

जिसका रजिस्टीकृत कोर्यालय : बी-507 सोमदत्त चैम्बर-। 5 भीकाजी कामा जेस, नई दिल्ली -110066, इंडिया स्थित है, के मामले मूँ

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से "गुजरात राज्य में स्थानांतरित क्र्रने

के लिए तारीखें 03 अक्टूबर 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प

के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानातरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायृत**

प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर

संकता है या एक शंपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित

के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक

इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों व

भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्मलिखित रिजस्ट्रीकृत कार्यालय के पते

ऐएमएस् गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड बी-507, सामेदत्त चैम्बर-I, 5 मीकाजी कामा फ्लेस, नई दिल्ली - 110066, इंडिया

पता : सिल्वराइन बिल्डिंग दूसरा फ्लोर 32, अल्टामाउंट रोड, केम्पस कॉर्नर, मुम्बई-400026

सार्वजनिक सुचना

माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ

सी.पी. (आइबी) नं. 68/चंडी./हरि./2018

सी.ए. नं. 111/2019 और 118/2019

अचीवसं बलियन्स एंड ज्वैलसं प्रा. लि.

सीए नं. 111/2019 और 118/2019 के तौर पर पंजीकृत आवेदन याचिकाकर्ता हारा दाखिल

किए गए थे। माननीय बेंच हारा मामला लिया

गया था और माननीय बेंच के आदेश दिनांक

19.09.2019 के अनुसार प्रकाशन के लिए

आदेश पारित किया था क्योंकि निम्नलिखित

प्रतिवादियों का अता-पता ज्ञात नहीं हैं इसलिए

सामान्य डाक की सेवाओं के माध्यम से तामील

नहीं किया जा सकता। प्रतिवादियों का विवरण

कारपोरेट ऋणी का पता (कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार): अचीयसं बुलियन्स एंड ज्यैलसं प्रा.

लि., शॉप नं. 49, नई अनाज मंडी, बल्लभगढ़,

कारपोरेट ऋणी के निदेशकों के नाम (कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध

रिकॉर्ड के अनुसार): 1. विनीत गुप्ता, 49, नई अनाज मंडी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-

2. अमित कुमार, गांव फिरोजपुर कलां तहसील,

उपरोक्त वर्णित प्रतिवादियों/व्यक्तियों को

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सी.पी.

(आइबी) नं. 68/चंडी./हरि./2018 में सी.ए.

नं, 111/2019 और 118/2019 माननीय

एनसीएलटी, चंडीगढ़ के समक्ष लंबित है और

वर्तमान मामलें की सुनवाई की अगली तिथि

नीचे दिए अनुसार है:

121004 और

फरीदाबाद, हरियाणा-121004

बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004

स्थान : नई दिल्ली

के विषय में:

कृते ऐएमएस गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

डीआईएन : 00570921

.....याचिकाकर्ता

.....प्रतिवादी/कारपोरेट ऋणी

ended on 30th September, 2019.

Place: New Delhi

Date: 24.10.2019

त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड

कारपोरेट पहचान संख्या:: एल29110यूपी1995पीएलसी041834 पंजीकृत कार्यालय: ए-44 हौजरी काम्पलैक्स, फेस II विस्तार, नौएडा-201305, उ० प्र० कारपोरेट कार्यालय: 8वीं मंजिल, एक्सप्रैस ट्रेड टावर्स, 15-16, सेक्टर-16ए, नौएडा,

उत्तर प्रदेश - 201301 वेबसाइट: www.triveniturbines.com , ई—मेल : shares.ttl@trivenigroup.com दूरभाष: 91 120 4308000 / फैक्स: 91 120 4311010-11

सेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन 2015 के विनियमन 29 साथ में पिठत विनियमन 47 के अनुसरण में एतदुद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 6 अक्टूबर, 2019 को सितम्बर 30, 2019 को समाप्त द्वितीय तिमाही/अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं रिकार्ड में ग्रहण करने हेतू आयोजित की जानी तय की गई है।

कम्पनी आचार संहिता के संदर्भ में विनियमित देखरेख एवं अंनरूनी द्वारा रिर्पोट ट्रेडिंग, कम्पनी की इक्वीटी शेयर्स की व्यवहारी ट्रेडिंग खिडकी 1 अक्टूबर, 2019 से 8 नवम्बर, 2019 (दोनों दिवस शामिल कर) तक बंद रहेंगी।

मंडल की बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईटस (www.triveniturbines.com) एवं साथ में बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटस (wwwbseindia.com) एवं दि नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाईटस (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग

द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

प्रकाशन नोटिस ओ०ए० संख्या 291/2019

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब—सेक्शन (4) संपठित उप

नियम (2ए) के नियम 5 समय-समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीड्योर) नियम

अरशद अली पुत्र अनवर अली निवासीः ग्राम शेरनगर, जिला— मुजफ्फरनगर, उ०प्र०

वसूली हेत् ओ०ए० सं० २९१ / २०१९ संख्यित किया है, जिसमें कि माननीय अधिकरण

ने ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के

सम्मन / नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 23.

नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के माध्यम से दी जा

रही सुचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 11.11.2019 को 10.

30 बजे प्रातः अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत

सूचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक

की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

Suman

(Company Secretary)

M. No. A52842

एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्युनल में उपस्थित हों।

यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तृष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरूद्ध 23,31,888 / - रू. की

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम जैन आयरन एण्ड इस्पात ट्रेडर्स एवं अन्य

कृते त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड हस्ता०/-राजीव साहनी कम्पनी सचिव

दिनांकः 25.09.2019

ट्रिब्युनल के आदेशानुसार

रजिस्ट्रार ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून



कार्य का नाम: पश्चिम जोन के अधीन एसी-32 में उत्तम नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न डार्क स्पॉट पर वर्तमान बीएसईएस 8मी, पोल पर एलईडी स्टीट लाइट फिटिंग एवं 70 वाट एलईडी स्टीट लाइट के साथ 3मी, 5मी, 7मी जीआई ऑक्टागोनल पोल, 12मी सेमी हाई मास्ट पोल उपलब्ध कराना एवं स्थापित करना। निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.tenderwizard.com/ SOUTHDMCETENDER से डाउनलोड किये जा सकते हैं। आर,ओ,सं, 93/डीपीआई/दक्षिणी/2019-20



SOUTHDMCETENDER का अवलोकन करें।

एनआईटी नं. ईई-प्रोजेक्ट दक्षिण-1/एसजेड/टीसी/2019-20/11 दिनांकः 25.10.2019 क्र.सं. १, अनुमानित राशि रु. 53,28,200 / -, निविदा राशिः रु. 49,27,588 / -, धरोहर राशिः रु. 1,06,600 / –, पूर्णता अवधिः 03 माह । निविदा कीमतः रु. 1,000 / –, लेखाशीर्षः XL-VIII-S (एमएलएएलएडीएस)। निविदा डाउनलोड / खरीदने की अंतिम तिथि: 05.11.2019 को 14.00 बजे तक । उपरोक्त निविदाओं के संबंध में सभी संशोधन, स्पष्टीकरण / परिशिष्ट, समय विस्तार आदि, यदि कोई हो, के संबंध में सभी विवरण केवल उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। निविदादाताओं से अनुरोध है कि इन निविदाओं के संबंध में नवीनतम

कार्यपालक अभियंता (परियोजना-। दक्षिण जोन आर.ओ नं. 92/दीपीआई/दक्षिणी/2019-20

समय-सारणी एवं कार्य के लिए विवरण के लिए कृपया www.tenderwizard.com/

000 **NOUVELLE**

DCM NOUVELLE LIMITED Registered office: 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place,

New Delhi-110008 Corporate Identity Number: L17309DL2016PLC307204 Phone: 011-4501 3348

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, November quarter and half year ended September 30, 2019.

05, 2019, to consider and approve, the unaudited financial results for the The information contained in this notice is also available on the Company

website www.dcmnvl.com and on the website of Stock Exchanges, i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com. For DCM Nouvelle Limited

Kunal Agrawal Place: New Delhi Dated: October 25, 2019 Company Secretary

झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मामले) मुख्य अभियंता का कार्यालय 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची ई- अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

-	आईडेन्टी		प्राक्कलित र	राशि (रूपये में)	कार्य
क्र0 सं0	फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	अंक में	अक्षर में	समाप्ति की तिथि
i.	RDD(RWA)/ JAMTARA/04/ 2019-20	बिहियाजोरी से रिगो—विंगो भाया फतेहपुर—धबको घरकचिया—नावाडीह तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई— 9.860 किं0मी0)	1,61,72,910.00	एक करोड़ एकसठ लाख बहत्तर हजार नी सौ दस रू० मात्र	12 माह

जमा करने की तिथि:-- 11.10.2019 पूर्वोहन 10.00 बजे से अपराहन 3.30 बजे तक। निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 14.10.2019 पूर्वाहन 11.30 बजे।

निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मामले), झारखंड, रांची, 102, द्वितीय

8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), कार्य प्रमंडल, जामताडा के पक्ष में भूगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

नोडल पदाधिकारी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है। ई-प्रोक्युर्मन्ट सेल PR 220894 Rural Work Department(19-20)D



ICRA Limited

Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Telephone No.:+91-11-23357940-45; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2019

Sr. No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2019 (Unaudited)	Six months ended September 30, 2019 (Unaudited)	Quarter ended September 30, 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	5,094.14	10,231.87	5,647.90
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,824.97	4,160.86	3,669.35
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,824.97	4,160.86	3,669.35
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,307.68	2,798.78	2,836.29
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,295.55	2,776.36	2,842.92
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Earnings per share (of ₹ 10/- each) Basic: Diluted:	13.60 13.60	29.10 29.10	28.76 28.74

FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2019.

Sr. No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2019 (Unaudited)	Six months ended September 30, 2019 (Unaudited)	Quarter ended September 30, 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	7,763.10	15,466.73	8,106.71
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,721.44	5,866.42	3,769.19
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,721.44	5,866.42	3,769.19
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,931.96	3,985.64	2,683.49
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,917.43	3,959.91	2,690.24
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Earnings per share (of ₹ 10/- each) - Basic: Diluted:	19.85 19.85	40.95 40.95	27.17 27.15

undergoing an adjudication proceeding ("Adjudication Proceeding") with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in relation to the credit ratings assigned to one of the Company's customers and the customer's subsidiaries. The Company is also cooperating with government agencies and responding to their queries in relation to this matter. Secondly, the Board of Directors of the Company has appointed external experts to examine and report on anonymous representations against certain of its existing/former officials, which were forwarded to the Company by SEBI ("Representations"). There have been certain allegations during the course of the internal examination of the Representations. which may be retaliatory in nature, for which the Board has appointed an external expert to examine. Thirdly, the Company has received a letter from SEBI seeking comments on observations made in the interim report dated July 15, 2019 prepared by Grant Thornton India LLP, which was commissioned by the IL&FS group. The Company has submitted its responses to SEBI on such observations. While the Company has made a provision for penalty on a prudent basis with regards to the Adjudication Proceeding, the Adjudication Proceeding as well as the examinations and other matters noted above remain ongoing and the results of which are not yet available or known. As on date, the Company is unable to estimate the impact, if any, that may result from a potential unfavorable conclusion of these matters or any related inquiry.

The above is an extract of the detailed format of Quarter and Six months ended September 30, 2019 and under the Investors section on the Company's website www.icra.in. By Order of the Board of Directors

Arun Duggal Chairman (DIN: 00024262)

🚇 उत्तरी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (परियोजना) का कार्यालय, सी.एल. जोन सिन्धोरा कलां, शक्ति नगर, नई दिल्ली - 110052 टेलीफोन नम्बर 011-23654558

संख्या : ईईपीआर / टीसी / सीएलजैंड / 2019-20 / 04

निविदा आमंत्रण सूचना

दिनांक 24.10.2019

क्रम सं. उत्तरी दिल्ली नगर निगम चरण प्रारम्भ तिथि समापन समय निविदा दस्तावेज के लिए अनुरोध 31.10.2019 17.30 बजे निविदा दस्तावेज फार्म जारी करना 31.10.2019 17.31 बजे निविदा दस्तावेज के लिए अनुरोध 13.11.2019 17.00 बजे निविदा दस्तावेज फार्म जारी करना 13.11.2019 17.30 बजे निविदा बंद होने की तिथि तथा समय 15.11.2019 12.00 बजे लागत निविदा खोलने की तिथि तथा समय 15.11.2019 12.15 बजे

अधिशासी अभियंता (पीआर) / सीएलजैंड द्वारा आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से मद दर / प्रतिशत दर आधार पर निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए अनुमोदित एवं पंजीकृत (सामान्य विंग) पात्र ठेकेदारों से केवल वेबसाइट

https://www.tendderwizard.com/NORTHDMCETENDER के माध्यम से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक ठेकेदारों से यह अनुरोध है कि मूल्य बोली के लिए अपनी फर्म का नाम उपलब्ध करवाएं, मूल्य बोली में नाम का उल्लेख न किए जाने की स्थिति में मूल्य बोली रदद कर दी जाएगी।

1.कार्य का नामः वार्ड नम्बर 14एन / सीएलजैंड में रोड 1 तथा 2 में विजय नगर डबल स्टोरी की सड़कों का निर्माण / सुधार कार्य एफटीसी सं.19/66/XL-VIII-एस(डी)पीसी-066 एच / ए: XL-VIII एस(डी) निविदा राशि: 1,43,94,223 / -रूपए पेशगी जमाः २,८७,९०० / –रूपए 2.कार्य का नामः वार्ड नम्बर १५एन / सीएलजैंड रोड न. 1 में इंदिरा विकास कालोनी की सड़कों तथा नालों का निर्माण / सुधार कार्य एफटीसी सं. 19 / 66 / XL-VIII-एस(डी)पीसी-066 एच / ए: XL-VIII एस(डी) निविदा राशिः 1,20,17,649 / - रूपए पेशगी जमाः 2,40,400 / - रूपए 3.कार्य का नामः वार्ड नम्बर 15एन / सीएलजैंड में रोड न. 2 में इंदिरा विकास कालोनी की सड़कों तथा नालों का निर्माण / सुधार कार्य एफटीसी सं.19/66/XL-VIII-एस(डी)पीसी-066 एच / एः XL-VIII एस(डी) निविदा राशिः 1,19,66,196 / -रूपए पेशगी जमाः 2,39,350 / -रूपए 4.कार्य का नामः वार्ड नम्बर 15एन / सीएलजैंड रोड न. 3 में इंदिरा विकास कालोनी की सड़कों तथा नालों तथा निकटस्थ रोड का निर्माण / सुधार कार्य एफटीसी सं. 19 / 66 / XL-VIII-एस(डी)पीसी-066 एच / ए XL-VIII एस(डी) निविदा राशिः 1,30,24,605 / - रूपए पेशगी जमा: 2,60,500 / - रूपए 5.कार्य का नाम: वार्ड नम्बर 15एन / सीएलजैंड में मुखर्जी नगर कालोनी की सड़कों तथा नालों का निर्माण / सुधार कार्य एफटीसी सं.19 / 66 / XL-VIII-एस(डी)पीसी-066 एच / ए XL-VIII एस(डी) निविदा राशिः 1,20,25,608 / - रूपए पेशगी जमाः 2,40,500 / - रूपए

6.कार्य का नामः वार्ड नम्बर 12एन / सीएलजैंड में बी.डी. एस्टेट, तिमारपुर की सड़कों तथा नालों का निर्माण / सुघार कार्य एफटीसी सं.19/66/XL-VIII-एस(डी)पीसी-066 एच / ए XL-VIII एस(डी) निविदा राशिः 66,56,880 / - रूपए पेशगी जमाः 1,33,150 / -रूपए 7.कार्य का नामः वार्ड नम्बर 14एन / सीएलजैंड में विजय नगर डबल स्टोरी की सड़कों का निर्माण / सुधार कार्य एफटीसी सं.19/66/XL-VIII-एस(डी)पीसी-066 एव / ए XL-VIII एस(डी) निविदा राशि: 48,27,234 / - रूपए पेशगी जमाः 96,550 / - रूपए

मद संख्या 1 से 6 की निविदा लागत 1000/- रूपए तथा मद संख्या 7 की 500/-रूपए है। मद संख्या 1 से 5 के कार्यों को पूरा करने की अवधि 9 माह तथा मद संख्या 6 एवं 7 के लिए 6 माह है। सभी मदों की दरें छः माह की अवधि के मान्य होनी चाहिए।

R.O No. 131/North DMC/2019-20 अधिशासी अमियंता (पीआर)सीएलजैंड

मुख्य कार्यालय: मंगलूरु-575 002 CIN: L85110KA1924PLC001128 परिसम्पत्ति वसुली प्रबंध शाखा 8 बी प्रथम तल, राजेन्द्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

बिक्री सूचना

अचल

सम्पत्ति की

फोन/फैक्सः 011-25813466, ईमेलः delhiarm@ktkbank.com, मोः 9319891680 वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम,

2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कार्णाटका बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 18.09.2019 से भौतिक कब्जा किया गया है की श्री विनय कुमार अगरवाल, पुत्र श्री राज कुमार अगरवाल, 2) श्रीमती पूनम अगरवाल, पत्नी श्री विनय कुमार अगरवाल, दोनों निवासीः फ्लैट नं. 01-00-03, शनशाइन कंट्री सुशांत सिटी, राई, सोनीपत-131029, जो ऋणधारक/गारन्टर/सह-देनदार हैं, से कर्णाटका बैंक लि., कुण्डली शाखा, प्लॉट नं. 32, कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, कुण्डली-131028, जिला-सोनीपत, हरियाणा, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये ओवर ड्राफ्ट ऋण खाता ३९०७०००१०००००१०१ के अंतर्गत १७.१०.२०१९ से आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ रु. 35,99,810.50 (रुपये पैंतीस लाख निन्यानवे हजार आठ सौ दस तथा पैसे पचास मात्र) की वसूली के लिये 15.11.2019 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगीः रु. 17,00,000.00 (रुपये सत्तरह लाख मात्र) है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री विनय कुमार अगरवाल के स्वामित्व में सुशांत सिटी, तहसील-राई, जिला-सोनीपत में रोमन कोर्ट के रूप में विदित कॉम्प्लैक्स में स्थित भू तल, माप 502 वर्ग फीट सुपर एरिया में व्यावसायिक सम्पत्ति शॉप/कार्यालय नं. जीएफ-बी-20, का सभी भाग तथा हिस्सा चौहद्दीः पूर्व 5 फीट कॉरीडोर जिस पर शॉप नं. बी-17ए है, पश्चिमः शॉप नं. बी-21, उत्तरः 5 फीट कॉरीडोर जिस पर शॉप नं. बी-15 है, दक्षिणः 5 फीट चौड़ा कॉरीडोर जिसके बाद

जमा/भुगतान की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1,70,000.00 (रुपये एक लाख सत्तर हजार

(ऋणधारकों/मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)

(इस सूचना को ऋणधारकों/गारन्टरों के लिए प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली-2002 के नियम (9) के उप-नियम (1) के अंतर्गत) सूचना भी मानी जाए।)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया कर्णाटक बैंक की वेबसाईट में दी गई लिंक अर्थात् www.karnatakbank.com पर शीर्ष ''बिक्री के लिए गिरवी परिसम्पत्तियां'

ई-नीलामी का संचालन 15.11.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक 05

मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टलः https://bankauctions.in पर किया जाएगा इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in पर अपना नाम निःशुल्क पंजीकृत करना होगा तथा मै. 4 क्लोजर, 605 ए, छठा तल, मैत्रीबनम, अमीरपेट, हैदराबाद-500038, सम्पर्क नं. 040-23736405, मोबाईल 8142000809, vikas@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से ई-नीलामी (अनुमानतः 14.11.2019 को) पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा

कर्णाटका बैंक लि. के लिए स्थानः दिल्ली तिथि: 25.10.2019 मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

कार्यापालक अभियंता का कार्यालय, सूवर्णरेखा नहर प्रमंडल, घाटशिला

पत्रांक :/ घाटशिला, दिनांक-...../ 2019. शुद्धि पत्र

इस कार्यालय से निर्गत निविदा आमंत्रण स्चना संख्या-WRD/SCD/Ghatsila/SBD-

03/2019-20 (पी0आर0न0-219567) को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता हैं।

> कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, घाटशिला।

PR 220902 Water Resource(19-20)D

TENDER NOTICE

Air Officer Commanding, Air Force Station Palam New Delhi-10 invites sealed tenders from war widows/ widows of defence personnel killed while on duty. disabled soldiers/ Ex-servicemen and spouses/ widows of Ex-servicemen having sound financial status in order to run following shops at this station for a period of five years. Civilians and Government agencies can also apply for the shops mentioned at para (a) to (f) below

SI. No.	Type of shop	Minimum Reserve Price (Monthly rebate)
(a)	Barber Shop RV Area	4000
(b)	Gents Tailor Shop Old Pinto Park	3000
(c)	Shoes Shop Old Pinto Park	500
(d)	Dry Cleaner Shop Old Pinto Park	3000
(e)	Studio & Photocopy Shop Old Pinto Park	2000
(f)	Ladies Tailor Shop Old Pinto Park	4000
(g)	Fruit Juice Shop at Camp Area	2000

Monday to Friday between 0800 hrs to 1200 hrs wef 28 Oct 19 to 08 Nov 19 or cash Payment of Rs. 100/- (Non refundable). EMD @ ₹2,500/- is to be deposited in the form of Demand Draft/ Pay order in favour of "SI Fund" payable to Air Force Station Palam New Delhi - 110010 alongwith the tender form. Applicants are to mention on top of the sealed envelope as "TENDER FOR(Name of the shop). Duly completed tender form alongwith Demand Draft/ Pay Order of earnest money and other documents (self attested copies) as mentioned in tender form are to be deposited in tender box kept at Sub Guard Room at Technical gate, 3 Wing AF from Monday to Friday before 1000 hrs on or before 11 Nov 19. The tender box will be opened at 1030 hrs on 11 Nov 19 by an independent board of officers in the presence of available applicants who have applied for the shops. Tender forms will be cancelled if not filled correctly and not attached the required documents as mentioned in the tender form. Tender form will only be issued to war widows/ widows of defence personnel killed while on duty, disabled soldiers/ Exservicemen and spouses/ widows

Contract for the shops will be awarded to the highest bidders subject to fulfillment of other terms and conditions. The shop will be allotted to the party as it is condition, no repair/ maintenance work will be undertaken by the administration. The Air Force Administration will have the right to accept or reject any tender or all tenders without assigning reasons On Allotment of Shop to the successful contractor, he shall not enter into any

sub contract, those who are not likely to be available in person to run the busines. need not apply. The original Contractor will be present at the shop for maximum period, unless he/ she is engaged in procurement of stock or is sick. The shop will only be run by the dependent, i.e. mother, father, wife, unemployed son and unmarried daughter. Under no circumstances shop will be run by the manager etc. A total of four security passes will be issued to run the shop (i.e. one contractor, one dependent and other two workers/ helpers). Additional passes if required it will be issued on payment @ ₹2,000/- per annum per pass. Sd- (Pappa Ram) Sqn Ldr

AF Stn Palam

की बिक्री

सूचना

छ कनाटका बक्रालामटड

मुख्य कार्यालयः मंगलूरु-575 002 CIN: L85110KA1924PLC001128 परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा

8-बी, प्रथम तल, राजेन्द्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060 फोन/फैक्सः 011-25813466, ईमेलः delhiarm@ktkbank.com, मोबाईलः 9319891680

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) र्व

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवरी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कर्णाटका बैंक लि. प्रतिभृत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी 7.2.2019 को भौतिव कब्जा किया गया है कि अधोलिखित

1) मै. अग्रवाल एसोसिएट्स, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रॉप्राईटरः श्री अजय अग्रवाल, शॉप नं. 2862/ 202, राज मार्केट, शाहगंज, जी.बी. रोड, नई दिल्ली- 110006, 2) श्री अजय अग्रवाल, पुत्र स्व. बाबूलाल अग्रवाल, मकान सं. 1498, सेक्टर- ७ ई फरीदाबाद- 121006, 3) श्री गोपाल अग्रवाल, पुत्र श्री अजय अग्रवाल, मकान सं 1498, सेक्टर- ७ ई, फरीदाबाद- 121006, जो ऋणधारक/ गारन्टर/ सह-देनदार हैं से कर्णाटका बैंक लि., फरीदाबाद शाखा हरियाणा, एससीओ 146, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स सेक्टर- 21 सी, फरीदाबाद- 121001, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये ओवर ड्राफ्ट ऋण खाता 2257000100015901 के अंतर्गत 1.10.2019 से आगे के ब्याज तथा लागती के साथ रु. 3,20,78,666.70 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख अठहत्तर हजार छः सौ छियासठ तथा पैसे सत्तर मात्र) की वसूली के लिये 18.11.2019 को ''जैसा है जहाँ

अचल सम्पत्ति का विवरण 1) श्री गोपाल अग्रवाल के स्वामित्व में ''रमणीक शॉपिंग कॉम्प्लैक्स'' के नाम से विदित बिल्डिंग, एनएच-1, एनआईटी, फरीदाबाद में निम्न भू तल पर स्थित व्यावसायिक दुकान की सम्पत्ति सं. 6, बिना छत के अधिकार के, माप 200 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः शॉप नं. ७, पश्चिमः शॉप नं. ५, उत्तरः खुला स्थान, दक्षिण

आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगीः रु 2200000.00 (रुपये बाईस लाख मात्र) जमा/ भुगतान की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2,20,000.00 (रुपये दो लाख बीस

हजार मात्र) तथा न्यूनतम बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/- है। 2) श्री अजय अग्रवाल के स्वामित्व में प्लॉट नं. जीएच-27, सेक्टर- 21-सी, पार्ट-3

अर्बण इस्टेट्स, फरीदाबाद में द गोल्फ एन्क्लेव को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी लि., के ए- ब्लॉक में प्रथम तल पर स्थित आवासीय सम्पत्ति फ्लैट नं. ए-102, माप 2552.31 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः फैंसिंग, उत्तरः फ्लैट नं. 101, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति।

आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगीः रु 1,01,00,000.00 (रुपये एक करोड़ एक लाख मात्र)

हजार मात्र) तथा न्यूनतम बोली वृद्धि राशि रु. 50,000.00 है। (ऋणधारकों/ मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए

उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।) (इस सूचना को ऋणधारकों/ गारन्टरों के लिए प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली- 2002

के नियम (१) के उप-नियम (1) के अंतर्गत) सचना भी मानी जाए।)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया कर्णाटक बैंक की वेबसाईट में दी गईं लिंक अर्थात् www.karnatakabank.com पर शीर्ष ''बिक्री के लिए गिरवी

ई-नीलामी का संचालन 18.11.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टलः https://bankauctions.in पर किय जाएगा। इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in पर अपना नाम निःशुल्क पंजीकृत कराना होगा तथा मै. ४ क्लोजर, 605 ए, छठा तल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद- 500038, सम्पर्क नं. 040-23736405, मोबाईल 8142000809, ईमेल vikas@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से ई-नीलामी

कर्णाटका बैंक लि. के लिए मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी | तिथि: 25.10.2019

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067 दुरभाषः 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com कब्जा सूचना

चूंकि, हाउसिंग डिवेलपगेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिगिटेड के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और / या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र.	कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी	बकाया राशि	माग सूचना	कब्जा करने	अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत
सं.	प्रतिनिधियों का नाम / ऋण खाता संख्या		की तिथि	की तिथि	परिसम्पत्तियों का विवरण
(0.58)	श्री श्याम गुप्ता और श्रीमती प्रतिभा ऋण खाता सं. 622334749 और 621457235	31—अक्टूबर—18* को बकाया रु. 26,68,589 / — (केवल छब्बीस लाख अड़सठ हजार पांच सौ नवासी रुपए)	-2018	-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट-1608, 16वीं मंजिल, टॉवर डी1, निराला एस्पायर, प्लॉट जीएच03, सैक्टर 16, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश नीचे अविभाजित आनुपातिक भूमि के हिस्से के साथ

हालाँकि, चूँकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति का प्रतिकात्मक कब्ज़ा अपने पास ले लिया है।

विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्ज़दारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्तियों / प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति / प्रतिभृत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट / आमंत्रित किया जाता है / जाते हैं। लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, कर्ज़दारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों से अनुरोध है / हैं

कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्योलय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें। स्थानः दिल्ली

कते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400 020

epaper.jansatta.com

22.11.2019 है तथा प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तिथि अर्थात 22.11.2019 को प्रातः 10.00 बने माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ के समक्ष उपस्थित होने के लिए एतद्द्वारा सुचित किया जा रहा है।

Place: Gurugram

Date: October 24, 2019

(रुचि प्रकटन) एम.ए.ई.एफ की वेबसाईट www.maef.nic.in पर उपलब्ध हैं। हस्ता./-सविव एवं सी.ई.ओ., एम.ए.ई.एफ

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम कार्यालय कार्यपालक अभियंता (इलेक्ट)/डब्ल्यूजेड

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एम.ए.ई.एफ)

नौजाना आजाद भवन, बेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एंट्री गेट के सामने (पहालगंब), नई दिल्ली–118855

विज्ञापन

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत 'सीखो और कमाओ' योजना के लिए एम.ए.ई.एफ द्वारा

पी.आई.ए-प्रीजेक्ट इम्प्लिमेंटिंग एजेंसी, (परियोजना कार्यान्वयन संस्थाएँ) मनोनयन करने हेत्

आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदक अपने प्रस्ताव 11 नवम्बर, 2019 तक सचिव एवं सी.ई.ओ.

एम.ए.ई.एफ, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को भेज सकते हैं। ई.ओ.आई–'एक्सप्रैशन ऑफ इंट्रेस्ट

ओल्ड जोनल बिल्डिंग, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 निविदा आमंत्रण सूचना एनआईटी नं. ईई/इलेक्ट्रिकल/पश्चिम जोन/2019-20/20, लाइन नं. 01 दिनांक: 25.10.2019

कार्यपालक अभियंता (ई)/डब्ल्युजेड

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम निविदा आमंत्रण सूचना-सह-प्रस्ताव हेतु

अनुरोध के लिए प्रेस सुचना जानकारी के लिए वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया

E-mail: dcmnouvelleltd@gmail.com, Website: www.dcmnvl.com

ई-निविदा संख्या:- 82/RI/2019-20/RDD(RWA)/JAMTARA दिनांक- 23.09.2019 मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०), झारखंड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार

05000	आईडेन्टी		प्राक्कलित र	प्राक्कलित राशि (रूपये में)		
क्रo सं0	फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि	
1.	RDD(RWA)/ JAMTARA/04/ 2019-20	बिहियाजोरी से रिंगो—चिंगो भाया फतेहपुर—धबको घरकचिया—नावाडीह तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई— 9.860 किं0मी0)	1,61,72,910.00	एक करोड़ एकसठ लाख बहत्तर हजार नी सी दस रू० मात्र	12 माह	

 ई—निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:— 10.10.2019 अपराह्न 5.00 बजे। 4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दरतावेज की एक प्रति

ई-निविदा प्रकोष्ट का दूरभाष सं0- 0651-2207818

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का

Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749

_	Inuper	es in lakhs except p		
Sr. No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2019 (Unaudited)	Six months ended September 30, 2019 (Unaudited)	Quarter ended September 30, 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	5,094.14	10,231.87	5,647.90
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,824.97	4,160.86	3,669.35
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,824.97	4,160.86	3,669.35
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,307.68	2,798.78	2,836.29
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,295.55	2,776.36	2,842.92
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Earnings per share (of ₹ 10/- each) Basic:	13.60	29.10	28.76

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

Sr. No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2019 (Unaudited)	Six months ended September 30, 2019 (Unaudited)	Quarter ended September 30 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	7,763.10	15,466.73	8,106.71
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,721.44	5,866.42	3,769.19
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,721.44	5,866.42	3,769.19
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,931.96	3,985.64	2,683.49
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,917.43	3,959.91	2,690.24
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Earnings per share (of ₹ 10/- each) - Basic: Diluted:	19.85 19.85	40.95 40.95	27.17 27.15

of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Six months ended September 30, 2019 and a qualified report (in respect of matter described in Note-1 above) has been issued. The full format of the Quarter and Six months ended September 30, 2019 of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites of National Stock Exchange and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively

दिनांकः 26.10.2019

प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

आईसीआईसीआई बैंक।

जमा/ भुगतान की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 10,10,000.00 (रुपये दस लाख दस

परिसम्पत्तियां'' देखें।

(अनुमानतः 16.11.2019 को) पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। स्थानः दिल्ली